

प्रेस नोट दिनांक - 09.11.2020

इटावा पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वाले 03 अभियुक्तों को (अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रुपये) पटाखों सहित किया गिरफ्तार ।

आगामी त्यौहारो की सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08/09.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशानुसार आगामी त्यौहारो के सुरक्षा के दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में सघन चैकिंग अभियान तथा थाना क्षेत्र में पैदल गश्त करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसमें सभी क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में निकल कर विभिन्न स्थानों पर चैकिंग की जा रही थी इसी क्रम में थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस द्वारा भरथना चौराहे पर चैकिंग की जा रही थी, चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना क्षेत्र के शकुंतला नगर में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री की जा रही है, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचकर देखा गया तो वहां पर कुछ लोग सडक पर पटाखे बिक्री कर रहे है । जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर पकड लिया गया । एवं पकड़े गये व्यक्तियों से पटाखों की बिक्री का लाइसेंस तलब करने पर वह लोग लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे एवं अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम को बताया गया कि हम लोग दीपावली के त्यौहार पर इन पटाखों को बिक्री हेतु लाये है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना फ्रेंड्स कालोनी पर मु0अ0स0 534/20 व 536/20 धारा 98 विस्फोटक अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजपाल पुत्र राजाराम जाटव निवासी मो0 शकुंतलानगर थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा ।
2. पवन कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी मो0 शकुंतलानगर थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा ।
3. अनुज शाक्य पुत्र लाल सिंह निवासी नई मंडी फर्खाबाद रोड थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा

बरामदगी -

1. 49 डिब्बा फुलझड़ी
2. 09 डिब्बा चर्की
3. 11 डिब्बा सुतली बम्ब
4. 04 डिब्बा 10 साउंड पटाखे
5. 02 डिब्बा मुस्ताक पटाखे
6. 52 डिब्बा बडे पटाखे
7. 06 डिब्बा चिरपटी
8. 08 डिब्बा रॉकेट
9. 01 सिंजेंडर
10. 20 डिब्बा सीको पटाखे
11. 100 पैकेट छोटे पटाखे
12. 33 डिब्बा अनार
13. 03 डिब्बा लैला
14. 02 डिब्बा सर्प गोली
15. 01 डिब्बा गैस पटाखा
16. 02 डिब्बा तिकोना
17. 24 डिब्बा लैला मंजनू पटाखा
18. 104 पैकेट मुन्नाभाई
19. 04 डिब्बा मुस्ताक रौशनी
20. 13 डिब्बा बांग

पुलिस टीम- निरी0 श्री प्रमोद कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेंड्स कालोनी मय टीम ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा